

RANA SUGARS LIMITED

REGD. OFFICE: SCO 49-50, SECTOR 8-C, MADHYA MARG CHANDIGARH- 160 009 (INDIA) CIN: L15322CH1991PLC011537, Website: www.ranasugars.com, E-mail: info@ranagroup.com TEL.: 0172-2540007, 2549217, 2541904, 2779565, 2773422, FAX: 0172-2546809

RSL/25-26/CS August 21, 2025

To,

Department of Corporate Services (DCS) The BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001. National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051.

Ref: Scrip Code: 507490 Company Symbol: RANASUG

Subject: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015 - Newspaper Advertisement

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we enclose herewith copies of the notice to shareholders published in the newspapers i.e. Business Standard (English) all editions and in Business Standard (Hindi) Chandigarh edition on 21st August, 2025 informing about the opening of a special window for re-lodgement of transfer requests for physical shares, which were lodged prior to the deadline of 1st April, 2019 and rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/process/or otherwise, in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025. All such re-lodgements with legally valid and complete documentation, where there is no dispute on ownership shall be considered.

The above information is also available on the website of the Company at http://ranagroup.com/rsl/investor 2022.htm

You are requested to take the above information on your records.

Thanking you, Yours sincerely,

For RANA SUGARS LIMITED

MADHUR BAIN SINGH

Company Secretary & Compliance Officer



सार्वजनिक सूचना (सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना की तामील न होने की रिथति में जारी की जाएगी)

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एससीओ 72-73, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ - 160017 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत सूचना

पता:– (1) श्री आयुष संघू पुत्र श्री जीवन संधू (उधारकेर्ता / बंधककर्ता), मकान संख्या 388, मखरोल, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश — 171209; **(२) श्री आयुष् संधू** पुत्र श्री जीवन संधू (उधारकर्ता / बंधककर्ता), मकान संख्या 710, दशमेश एनकाल्वे, पटियाला रोड, जीरकपुर, पंजाब – 140603 (3) श्रीमती गीता संधू पत्नी श्री जीवन संधू (सह-उधारकर्ता), मकान संख्या 388, मखरोल, तहसील ठियोग, जिला शिमला

रतदृद्वारा उपर्युक्त उधारकर्ता(ऑ), बंधककर्ता(ऑ) और गारंटीकर्ता(ऑ) को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त उधारकर्ता को **आईडीबीआई बँक** लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से (सामूहिक रूप से "वित्तीय सहायता") रु. 33,00,000/— (केवल तैंतीस लाख **रुपये)** की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। उक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी के अनुसरण में, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) द्वारा आवश्यक ऋण और सुरक्षा दस्तावेज निष्पादित किए गए थे। उक्त वित्तीय सहायता को अन्य बातों के साथ–साथ नीचे उल्लिखित संपत्तियों के शीर्षक कार्यों को जमा करके बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया है। चुंकि उपरोक्त उधारकर्ता ने **31.01.2024 के ऋण समझौते** के संदर्भ में उक्त वित्तीय सहायता के पूनर्मृगतान में चूक की है, इसलिए उधारकर्ता के खाते को समय–समय पर **भारतीय रिजर्व बँक (आरबीआई) द्वारा** जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 10.042025 को आईडीबीआई बैंक की बहियों में अनिष्पादनकारी संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त उधारकर्ता द्वारा की गई चूकों के मद्देनजर, आईडीबीआई बैंक ने **अपने पत्र दिनांक 20.05.2025 के माध्यम से, दिनांक 10.04.2025** तक ब्याज और अन्य धनराशियों सहित कुल 29,11,851 /— (रुपये उनतीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ इक्यावन रुपये मात्र) की वित्तीय सहायता को उधारकर्ता द्वारा तत्काल देय घोषित किया है और उधारकर्ता से उक्त राशि को उक्त पत्र में उल्लिखित संविदात्मक दर पर, भुगतान या वसुली तक 10.04.2025 से उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित आईडीबीआई बैंक को भुगतान करने का आह्वान किया है।

रु. 29,11,851 /- (रुपये उनतीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) जो 10.042025 तक देय है, उस पर 10.042025 से अतिरिक्त व्याज सहित, जो **आईडीबीआई बैंक** को तत्काल देय है और भुगतान/वसुली तक संविदात्मक दर पर अतिरिक्त व्याज सहित, की आवश्यक सूचना **आईडीबीआई बैंक द्वारा 02.08.2025 को जारी/सेवा प्रदान की गई थी।** सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत, यह उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) के संबंधित पतों पर **"पंजीकृत डाक द्वारा पावती देय"** द्वारा भेजा गया था, जिसे "पताकर्ता का पता नहीं लगाया जा सकता" के रूप में डाक टिप्पणी के साथ बिना तामील किए वापस कर दिया गया। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह सार्वजनिक सुचना सरफेसी नियमों के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुपालन में जारी की जाती है।

कृपया ध्यान दें कि आप **आईडीबीआई बैंक** की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति को हस्तांतरित या अन्यथा (अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) नहीं करेंगे, अन्यथा आप सरफेसी अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराघ के लिए उत्तरदायी होंगे।

हम आपका ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं।

इन परिस्थितियों में, उधारकर्ता / बंधककर्ता से एक बार फिर अनुरोध है कि वे उपरोक्त राशि का भुगतान इस तिथि से साठ दिनों के भीतर करें, अन्यथा **आईडीबीआई बैंक,** एक सुरक्षित ऋणदाता के रूप में, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत और साथ ही **आईडीबीआई बैंक** को उपलब्ध किसी अन्य कानून के तहत अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए अपने सुरक्षा हित को लागू करने का हकदार होगा।

संपत्ति का विवरण:-फ्लैट संख्या बी–212, 2बीएचके, ब्लॉक–बी, छठी मंजिल का वह पूरा टुकड़ा जिसका आवृत्त क्षेत्रफल 1050 वर्ग फुट है जो खेवट खतौनी संख्या 260/306, खसरा संख्या 21//20/2(3–16), 21/1(3–6), हदंबस्त संख्या 33, कित्ते–2 कुल भूमि 07 कनाल 02 मरला जिसमें से 3/568 हिस्सा यानी 0.75 मरला सुखमनी एन्क्लेव, सेक्टर 127, गाँव छज्जूमाजरा, तहसील खरड़, जिला एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में श्री आयुष संधू पुत्र श्री जीवन संधू के नाम पर पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 2023–24/15/1/17189 दिनांक 01.022024 सहित सभी और कल संरचनाओं और निर्माणों सहित, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों में विद्यमान।

दिनाँक: 20-08-2025.

स्थान : चंडीगढ

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड



सार्वजनिक सूचना (सरफेसी अधिनियम की घारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना की तामील न होने की रिथति में जारी की जाएगी)

आईखीबीआई बैंक लिमिटेड, एससीओ 72–73, सेक्टर 17–बी, चंडीगढ़ — 160017 क्तिय आस्तियों के प्रतिमूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत सूचना

पत:— (1) श्री मनोज ठाकुर पुत्र श्री कुजा सिंह (उंधारकर्ता/बंधककर्ता), वीपीओ जगोठी (54) तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश—171207; **(2) प्रतिभूति पता:— श्री मनोज ठाकुर** पुत्र श्री कुजा सिंह, फ्लैट संख्या बी—204, 2—बीएचके, ब्लॉक—बी, द्वितीय तल, ब्लॉक—बी, सुखमनी एन्क्लेव, सेक्टर 127, निज्जर रोड, छज्जू माजरा, तहसील खरड़, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब।

. तद्वारा उपर्युक्त उधारकर्ता(ऑ), बंधककर्ता(ऑ) और गारंटीकर्ता(ऑ) को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ता को आईडीबीआई बँक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) द्वारा ओवरडाफ्ट स्विधा के माध्यम से **रु. 20,00,000/— (केवल बीस लाख रुपये)** (सामुहिक रूप से "वित्तीय सहायता") की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। उक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी के अनुसरण में, **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक)** द्वारा आवश्यक ऋण और सुरक्षा दस्तावेज निष्पादित किए गए थे। उक्त वित्तीय सहायता, अन्य बातों के साथ–साथ, नीचे उल्लिखित संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों को जमा करके बंधक द्वारा सुरक्षित की गई है। चूँकि उपरोक्त उधारकर्ता ने **दिनांक 27.122023 के ऋण** समझौता(तों) के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए **भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)** द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, उधारकर्ता के **खाता को आईडीबीआई बैंक की बहियों में 10.04.2025 को अनिष्पादनकारी आस्तियाँ (एनपीए)** के रूप में वर्गीकृत किया गुया है। उपरोक्त उधारकर्ता द्वारा की गई चूकों को देखते हुए, आईडीबीआई बैंक ने अपने दिनांक 13.05.2025 के पत्र के माध्यम से ब्याज और अन्य धनराशि सहित 10.04.2025 तक कुल रु. 18,11,530/- (केवल अठारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ तीस रुपये) की वित्तीय सहायता घोषित की है जो कि उधारकर्ता द्वारा तुरंत देय और भुगतान योग्य हो गए हैं और उधारकर्ता से कहा गया है कि वह उक्त राशि को **आईडीबीआई बैंक को 10.04.2025 से मुगतान या वसूली तक अतिरिक्त ब्याज के साथ, उक्त पत्र में उल्लिखित** संविदात्मक दर पर भुगतान करे।

रु. 18,11,530/— (केंवल अठारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ तीस रुपये) 10.04.2025 तक अतिरिक्त ब्याज के साथ आईडीबीआई बैंक को तुरंत देय और भगतान योग्य है. साथ ही भगतान/वसली तक संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ **आईडीबीआई बैंक द्वारा 02.08.2025** को जारी / सर्वे किया गया था। सरफेसी अधिनियम की घारा 13(2) के अंतर्गत, उधारकर्ता / बंधककर्ता के संबंधित पतों पर **'पावती सहित पंजीकृत डाक'** द्वारा, जिसे "पताकर्ता का पता नहीं लगाया जा सकता" कहकर डाक टिप्पणी के साथ बिना तामील किए वापस कर दिया गया। उपरोक्त के महेनजर यह सार्वजनिक सूचना सरफेसी नियमों के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुपालन में जारी की जाती है।

कृपया ध्यान दें कि आप **आईडीबीआई बैंक** की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा (अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) नहीं करेंगे, अन्यथा आप सरफेसी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। हम सुरक्षित संपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं।

इन परिस्थितियों में, उधारकर्ता / बंधककर्ता से एक बार फिर अनुरोध है कि वे उपरोक्त राशि का भुगतान इस तिथि से साठ दिनों के भीतर करें, अन्यथा **आईडीबीआई बैंक,** एक सुरक्षित ऋणदाता के रूप में, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत और **आईडीबीआई बैंक** को उपलब्ध किसी अन्य कानून के तहत अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए अपने सुरक्षा हित को लागू करने का हकदार होगा। संपत्ति का विवरण:-

पलैट संख्या बी–204, 2बीएचके, ब्लॉक–बी, द्वितीय तल का वह पूरा टुकड़ा जिसका आवृत्त क्षेत्रफल 1050 वर्ग फुट है, जो खेवट खतौनी संख्या 260/306, खसरा संख्या 21//20/2(3—16), 21/1(3—6), हदबस्त संख्या 33, कित्ते—2 में शामिल कुल भूमि 07 कनाल 02 मरला है जिसमें से 3/568 हिस्सा यानी 0.75 मरला सुखमनी एन्वलंव, सेक्टर 127, गांव छञ्जूमाजरा, तहसील खरड़, जिला एसएएस नगर मोहाली, पंजाब में स्थित है, जो श्री मनोज ठाकुर पुत्र श्री कुजा सिंह के नाम पर बिक्री विलेख संख्या 2023–24/15/1/15229 दिनांक 29.12.2023 के तहत पंजीकृत है, साथ ही उस पर सभी और एकल संरचनाएं और निर्माण, वर्तमान और मविष्य दोनों कालों में

दिनाँक : 20-08-2025, प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बेंक लिमिटेड

राना सुगर्स लिमिटेड

CIN: L15322CH1991PLC011537 पंजीकृत कार्यालयः एससीओ 49-50, सेक्टर 8-सी, चंडीगढ़-160009 वेयसाइटः www.ranasugars.com, ई-मेलः info@ranagroup.com दूरमाषः 0172-2540007, 2549217, 2541904, 2779565, 2773422, फैक्सः 0172-254680

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने के लिए विशेष विंडो

एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, कंपनी द्वारा इस्तांतरण विलेखें को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जो मूल रूप से 01 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए थे. लेकिन दस्तावेजों/प्रक्रिया/अन्यथा में कमियों के कारण वापस कर दिए गए/अस्वीकार कर दिए गए/अनदेखा कर दिए गए थे। विशेष विंडो 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक खुली

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए कानूनी रूप से वैध एवं सम्पूर्ण दस्तावेज का पुनः दाखिल, पर विचार किया जाएगा, जहां मालिकाना हक पर कोई भी विवाद नहीं है। निवेशक अपने अनुरोध हमारे पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट ("आरटीए"), पता मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 205-208 अनारकली मार्केट, झंडेवालां एक्सटेंशन, नई दिल्ली, दिल्ली-110055, ईमेलः info@alankit.com. rta@alankit.com, दुरभाष सं.: (022) 6263 8200 के समक्ष प्रस्तुत करें।

इस अवधि के दौरान, प्रतिभूतियां जो हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल की जा चुकी हैं, उसे सिर्फ डिमेट प्रारूप में जारी की जाएंगी। निवेशकों के पास डिमेट खाता होना चाहिए एवं आरटीए के समक्ष हस्तांतरण अनरोध पनः दाखिल करते समय हस्तांतरण दस्तावेज तथा शेयर सर्टिफिकेट के साथ अपनी क्लाइंट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

हमलोग यह दोहराते हैं कि पुनः दाखिल करने की अनुमति केवल उन्हीं मामले में दी जाएगी, जहां भौतिक शेयरों के लिए हस्तांतरण 01 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों, प्रक्रिया/अन्यथा में किमयों के कारण वापस कर दिए गए/अरवीकार कर दिए गए/अनदेखा कर दिए गए थे। कृते राना सुगर्स लिमिटेड

तारीख: 20 अगस्त, 2025

मधुर बैन सिंह

[विनियम-13(1)(ए) देखें

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17ए, चण्डीगढ़ (उसरे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

केस नं. ओए/1788/2024 ईएक्सएच. नं. 27239 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के तहत समन

सेवा में.

हरियाणा- 136118

(1) प्रतिवादी संख्या 1. मेसर्स ब्रह्मानंद सुभाष चंद एक स्वामित्व फर्म, अपने साझेदारों श्री **सुभाष चंद और कृष्ण कुमार** के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय और कृष्ण कुमार का पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या 212, नई अनाज मंडी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा-136118

एचडीएफसी बैंक बनाम ब्रह्मानन्द सभाष चन्द चंद

इसके अतिरिक्तः मेसर्स ब्रह्मानंद सुभाष चंद एक स्वामित्व फर्म, अपने साझेदारों श्री सुभाष चंद और कृष्ण कुमार के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या 136-ए, नई अनाज मंडी करुक्षेत्र. हरियाणा-136118 में है।

इसके अलावाः श्री सुभाष चंद, श्री साधु राम के पुत्र, व्यवसाय का पताः सी/ओ मेसर्स ब्रह्मानंद सुभाग चंद पार्टनर्स, पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या 212, नई अनाज मंडी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा-136118 (2) **श्री सुभाष चंद पुत्र श्री साधु राम**, भैंसी माजरा, 18, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हरियाणा-136118 इसके अलावाः श्री सुभाष चंद पुत्र श्री साधु राम के पुत्र, व्यवसाय का पताः वाया मेसर्स ब्रह्मानंद सुभाष चंद पार्टनर्स, पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या 136-ए, नई अनाज मंडी, कुरुक्षेत्र,

यह भी पताः श्री सुभाष चंद पुत्र श्री साधु राम, व्यवसाय जिसका पंजीकृत कार्यालय, पताः वाया मेसर्स ब्रह्मानंद सुभाष चंद पार्टनर्स, पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या 212, नई अनाज मंडी, कुरुक्षेत्र,

जैसा कि **ओए**/1788/2024 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 22.07.2025 को

जैसा कि यह माननीय अधिकरण रू. 30,75,544.34/- के ऋण (दस्तावेजों की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है) की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दाखिल इस अधिनियम की धारा 19(4) (ओए) के तहत कथित आवेदन पर समन/सचना सहर्ष जारी करते हैं।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नवत निर्देश दिया जाता है :

(i) समन की सर्विस के तीस दिनों के भीतर कारण बताना कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गयी उसे स्वीकार क्यों न किया जाये। (ii) मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के

अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के विवरणों को प्रकटित करना; (iii) आपको प्रतिभृत आस्तियों अथवा मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकटित अन्य

आरितयों तथा सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार करने, सनवाई लम्बित करने तथा सम्पत्तियों वे अटैचमेंट हेतु आवेदन को निस्तारित करने से निषिद्ध किया जाता है; (iv) आप उन किसी आस्तियों को सामान्य प्रकार्यों के विषय को छोड़कर जिस पर प्रतिभित हित

सजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत निर्दिष्ट अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से हस्तान्तरित नहीं करेंगे:

(v) आप प्रतिभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सामान्य प्रकार्य में सम्पत्तियों की बिकी द्वार वसूलीकृत बिक्री कार्यवाहियों हेतु उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्रीत कार्यवाहियों को बैंक अथवा ऐसी आस्तियों पर प्रतिभित हित धारक वित्तीय संस्थानों के खातों में अनुरक्षित करेंगे।

आपको 17.09.2025 **को** 10.30 **बजे** प्रातः रजिस्टार के पास एक लिखित वक्तव्य जिसकी एक प्रति आवेदक को देनी है, दाखिल करने तथा उनके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है जिसमें असफल होने पर आवेदन पर सनवाई की जायेगी और आपकी अनपस्थिति में फैसला दिया जायेगा 24.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की मुहर सहित

समन जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

ईएक्सएच. नं. 27490

[विनियम-13(1)(ए) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17ए, चण्डीगढ़ (उसरे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

केस नं. ओए/975/2024 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के तहत समन एचडीएफसी बैंक बनाम राजकमल कंवर फड़स एवं अन्य

(4) प्रतिवादी संख्या 4. श्रीमती मोनिका, पत्नी श्री जगदीप सिंह, निवासी 2127, टाइप-10, सेक्टर-27र्स . साथ ही: श्रीमती मोनिका, पत्नी श्री जगदीप सिंह, व्यवसायिक पता: मेसर्स राज कंवर फडस, कार्यालय संख्या 161

सेक्टर-8, अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा–132001 जैसा कि ओए/975/2024 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्टार के समक्ष 11.08.2025 को

सचीबद्ध किया गया था। जैसा कि यह माननीय अधिकरण रु. 2,68,33,676.39/- के ऋण (दस्तावेजों की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है) की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दाखिल इस अधिनियम की धारा 19(4) (ओए)

के तहत कथित आवेदन पर समन/सचना सहर्ष जारी करते हैं। अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नवत निर्देश दिया जाता है (i) समन की सर्विस के तीस दिनों के भीतर कारण बताना कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गयी उसे स्वीकार क्यों न किया जाये।

(ii) मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों वे अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के विवरणों को प्रकटित करना; (iii) आपको प्रतिभृत आस्तियों अथवा मृल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकटित अन्य

आस्तियों तथा सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार करने, सनवाई लम्बित करने तथा सम्पत्तियों के अटैचमेंट हेत् आवेदन को निस्तारित करने से निषिद्ध किया जाता है; (iv) आप उन किसी आस्तियों को सामान्य प्रकार्यों के विषय को छोड़कर जिस पर प्रतिभति हित

सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत निर्दिष्ट अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से हस्तान्तरित नहीं करेंगे:

(v) आप प्रतिभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सामान्य प्रकार्य में सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा वसूलीकृत बिक्री कार्यवाहियों हेतु उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्रीत कार्यवाहियों को बैंक अथव ऐसी आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक वित्तीय संस्थानों के खातों में अनुरक्षित करेंगे।

आपको 29.09.2025 **को** 10.30 **बजे** प्रातः रजिस्टार के पास एक लिखित वक्तव्य जिसकी एक प्रति आवेदक को देनी है, दाखिल करने तथा उनके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है जिसमें असफल होने पर आवेदन पर सनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला दिया जायेगा 16.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की महर सहित

समन जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis every day with Stocks in the News in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

Truhome माँग सूचना

टूहोम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टॉवर, प्रथम तल, द्वार नं. 5, पुराना नं. 11, द्वितीय लेन, सेनाटोफ रोड. अलवरपेट. तेयनाम्पेट. चेन्नई-600018 मख्य कार्यालय : लेवल 3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा

(पूर्व), मुंबई 400051, वेबसाइट : www.truhomefinance.in

एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने **टुहोम फाइनेंस लिमिटेड** (**पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**) से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मुलधन और ब्याज की अदायगी में चुक की है और उक्त ऋण खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. उन्हें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एवं पनर्गठन तथा प्रतिभति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) क धारा 13 (2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर मांग सूचना जारी की गयी थी। उक्त मांग सूचना के अलावा, उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के

माध्यम से सचित किया गया है। कर्जदारों, प्रतिभृतियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना और उसके अंतर्गत दावाकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

कर्जदार(रो)/सह-कर्जदार(रो) का नाम तथा पता लैन नंबर - SHLHCNDR0000022 और STUHCNDR0000601 श्री हितेश पुत्र श्री सुरिंदर शर्मा (कर्जदार) श्रीमती प्रियंका देवी पत्नी श्री हितेश (सह-कर्जदार) सभी निवासी - मकान संख्या-2470, फेज-2, रामदरबार, पत्यंग भवन के पास, चंडीगढ़ 160002, मोबाइल 7536910007 और मेसर्स स्टार एंटरप्राइजेज इसके प्रोपराइटर श्री हितेश के माध्यम से, दुकान नंबर-02, अमरावती चौक के पास, फेज-03, साई रोड, बद्दी, जिला-सोलन (हिमाचल प्रदेश) 173205. मोबाइल नंबर 7536910007 और फ्लैट नंबर-०६ ए, ग्राउंड फ्लोर, द नेस्ट जीटीबी नगर, साई हेल्थ विलनिक के पास, सेक्टर-14, खरड़, जिला-एसएएस नगर मोहाली (पंजाब) 140301 मोबाइल 7536910007 एवं मैसर्स स्टार इंटरप्राइजेज इसके प्रोपगडटर श्री हितेश के माध्यम से, दुकान नंबर- 19, सालासर कॉम्प्लेक्स, धर्म कांटा के पास, बद्दी, जिला- सोलन (हिमाचल प्रदेश) 173205, मोबाइल 7536910007 और श्रीमती प्रियंका देवी पत्नी श्री हितेश (एरिया रिलेशनशिप एक्जीक्यटिव) वााया इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड सेंट्रल वेयरहाउस, फेज-०९, औद्योगिक क्षेत्र, मोहाली पंजाब) 160062, मोबाइल: 8894776666 एवं श्रीमती प्रियंका देवी पत्नी श्री हितेश वाया रिलायंस जियो. प्लॉट (पंजाब) मोबाइल: 8894776666

ऋण राष्ट्रि- रु. 24,75,555 और 1,80,680

लैन संख्या- SHLHCNDR0000547

श्री जगवंत सिंह मान पुत्र लाल सिंह (कर्जदार)

श्रीमती कमलपीत कौर पत्नी श्री जगवंत सिंह मान

लैन- SHLHCNDR0000022 और

STUHCNDR0000601

(सह-कर्जदार)

एनपीए दिनांक- ०३.०८.२०२५

खेवत ∕खतौनी 1612/1739, खसरा माप् और सीमा निम्नानुसार है। बिक्री विलेख के अनुसार सीमा: उत्तर: सडक चौडाई 35 पर्वः मकान संख्या 5 पश्चिमः दुकाने

प्रतिभृत आस्तियों का सम्पत्ति पता

आवासीय मकान/संपत्ति/भिम/ मांग सचना दिनांक-12-08-2025 प्लॉट/संपत्ति/ वाणिज्यिक/फ्लैट मांग सूचना गशि रु. 25,12,507/- (रुपये संख्या ०६-ए, भूतल, क्षेत्रफल ०१.१६ पच्चीस लाख बारह हजार पाँच साँ सात मात्र) संख्या दिनांक 07-08-2025 तक ऋण खाता संख्या संख्या SHLHCNDR0000022 के संदर्भ में और 18//10/3(5-0), 1/1 (4-16), रू. 1,99,178/- (रुपये एक लाख निन्यानबे मकान संख्या 184, गुरु तेग बहादुर हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) दिनांक नगर, खरड़, जिला-प्सएएस नगर, 07-08-2025 तक ऋण खाता संख्या मोहाली, पंजाब में स्थित। जिसकी STUHCNDR0000601 के संदर्भ में तथा अब तक उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि।

मकान/संपत्ति/भूमि/ मांग सूचना दिनाक-12-08-2025 फ्लैट∕संपत्ति∕मकान संख्या 66 का मांग सूचना गशि रु. 32,37,164∕-क्षेत्रफल 1.25 बत्तीस लाख सैतीस हजार एक सौ चौसठ भाग, मरला/37.50 वर्ग गज है, 30 कनाल मात्र) दिनांक 07-08-2025 तक ऋण खाता टुकडा किते s माप वाले प्लॉट का संख्या SHLHCNDR0000547 के संदर्भ 5/2432 हिस्सा, जिसमें खेवट/खतीनी में, साथ ही पूर्वोक्त ब्याज और आकस्मिक

11/2/1(2-

सभी निवासी - फ्लैट संख्या-202, टावर संख्या-2, संख्या 156/156, 296/299 खसरा व्यय, लागत आदि। एक्मे एडेन कोर्ट, सेक्टर-91, मोहाली, तहसील एवं संख्या 24//2/4(4-0), 9(8-0), 10/1(1-4). जिला–एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब,160071 मोबाइल 12),12(7-7), 2/1/2(0-4) ने.- 9041363685 तथा मेसर्स बॉस बीट रिकॉर्ड्स 10/2(6-16), 257/6/1/1(0-5) इसके पोपराइटर श्री जगवंत सिंह मान के माध्यम से. मरनला ०८ शामिल. वर्ष 2014-15 की जमाबंदी के अनुसार, हदबस्त फ्लैट संख्या-सीसीए- ०४००४, वन राइज, सेक्टर-९९, संख्या-186, वाकिया रकबा संते मोहाली, तहसील और जिला-एसएएस नगर, मोहाली, माजरा, शिवालिक सिटी, शिवालिक बी-यउन, तहसील-खरड़, जिला (पंजाब) 160055, मोबाइल नंबर- 9041363685. और एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब) में मकान नंबर-805, टॉप फ्लोर, सेक्टर-43 ए, चंडीगढ़, स्थित है, जिसकी माप और सीमा 160036. मोबाइल नंबर-9041363685 निम्नानुसार है। साइट के अनुसार सीमा:

ऋण राशि - रु. 31,15,224 लैन- SHLHCNDR0000547 एनपीए दिनांक- 03.08.2025

लैन नं. - SHLHMHLI0000689 श्री मनोज शर्मा पत्र श्री जगदीश शर्मा (कर्जदार) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा (सह-कर्जदार) सभी निवासी - मकान संख्या-2494, सेक्टर-38 सी, मार्केट के पास. बधेरी. चंडीगढ-160036 मोबाइल: 9779168244 और श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, स्वामी सुदर्शन फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड,

पीजीआईएमईआर (पीजीआई) मार्केट, सेक्टर-12, चंडीगढ़ 160011. और फ्लैट नंबर-60, तीसरी मंजिल, पैराडाइज अपार्टमेंट, शिवालिक सिटी सेक्टर-127, गांव- छज्जू माजरा, इ, ज़िला एसए.एस नगर, मोहाली तहसील-खरड़, जिला- एसएएस नगर मोहाली, एवं मैंसर्स शर्मा जनरल स्टोर इसकी प्रोपराइटर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा दुकान नंबर-112, सेक्टर-38 सी, चंडीगढ़-160036 के माध्यम से। ऋण राशि- रु. 2071410

आवासीय मकान/संपत्ति/जमीन/प्रलैट मांग सूचना दिनांक-13-08-2025 3),17/16/1(3-12) कित्ते 02, लागत आदि। जमीन का क्षेत्रफल 10 कनाल 15 मरला, हदबस्त संख्या-33, वाकिया गाँव छज्जू माजरा, हदबस्त संख्या-33, नगर निगम और तहसील- खर-

पंजाब में। जिसकी सीमा और माप

उत्तर: 35' चौड़ी सड़क

पूर्व: फ़्लैट संख्या 67-ए

दक्षिण: खुली जमीन

पश्चिम: अन्य प्रलैट

संख्या-60 का समस्त भाग, तीसरी मांग सूचना राशि रु. 20,76,192/- (रुपये मंजिल, पैराडाइज अपार्टमेंट्स, क्षेत्रफल 17.85 वर्ग गज, दितांक 08-08-2025 तक ऋण खाता संख्या खेवट/खतीनी संख्या 218/263, SHLHMHLI0000689 के संदर्भ में, खसरा संख्या 1 7/15/2(7- साथ ही पूर्वोक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय,

एनपीए दिनांक-03.08.2025 इसलिए आप कर्जदारों से अनुरोध है कि आप इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर बताए गए बकाया राशि का पूरा भुगतान करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त प्रतिभृतियों को प्रवर्तित करने के लिए सरफैसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभतियों को स्थानांतरित करने से निषिद्ध किया जाता है। ह./ अधिकृत प्राधिकारी- टूहोम फाइनेंस लिमिटेड

साइट के अनुसार सीमा:

उत्तरः खला स्थान

पूर्व: खला स्थान

दिनांक: 21.08.2025

लैन.- SHLHMHLI0000689

(पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)



सार्वजनिक सूचना (सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) रियति में जारी की जाएगी)

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एससीओ 72–73, सेक्टर 17–बी, चंडीगढ – 160017 क्तिय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत सूचना

पता:- (1) श्री गोपाल पुत्र श्री केदार सिंह (उधारकर्ता / बंधककर्ता), ग्राम चौंरा फागू, ्री शिमला, हिमाचल प्रदेश — 171209; **(2) प्रतिभूति पता:- श्री गोपाल** पुत्र श्री केदार सिंह, फ्लैट संख्या बी–203, 2–बीएचके, ब्लॉक–बी, द्वितीय तल, ब्लॉक–बी, सुखमणि एन्क्लेब, सेक्टर 127, निज्जर रोड. छज्ज माजरा. तहसील खरड. एसएएस नगर. मोहाली. पंजाब।

उपर्युक्त उधारकर्ता(ऑ), बंधककर्ता(ऑ) और जमानतदार(कों) को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ता को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से रू. 33,50,000/- (रुपये तैंतीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय सहायता (सामृहिक रूप से 'वित्तीय सहायता') स्वीकृत की गई थी। उक्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति के अनुसरण में, आईडीबीआई बैंक **लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक)** द्वारा आवश्यक ऋण और सुरक्षा दस्तावेज निष्पादित किए गए। उक्त वित्तीय सहायता, अन्य बातों के साथ—साथ नीचे उल्लिखित संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों को जमा करके बंधक द्वारा सुरक्षित की गई है। चूंकि उपरोक्त उधारकर्ता ने 24.11.2023 के ऋण समझौते(ओ) के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को आईडीबीआई बैंक की बहियों में 11.05.2025 को अनिष्पादनकारी संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपने **दिनांक 16.06.2025 के पत्र के माध्यम से, दिनांक 10.05.2025** को ब्याज और अन्य धनराशिय सहित कुल रु. 29,45,149/— (रुपये उनतीस लाख पैंतालीस हजार एक सौ उनचास मात्र) की वित्तीय सहायता को उधारकर्ता द्वारा तत्काल देय और देय घोषित किया है और उधारकर्ता से अनुरोध किया है कि वह उक्त राशि को 10.05.2025 **से भुगतान या वसूली होने तक, उ**क्त पत्र में उल्लिखित संविदात्मक दर पर, उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित, आईडीबीआई बैंक को भुगतान करे।

दिनांक 10.05.2025 को रु. 29.45,149/- रुपये (उनतीस लाख पैंतालीस हजार एक सौ उनचास रुपये मात्र) की आवश्यव सूचना, 10.05.2025 से उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित, आईडीबीआई बैंक को संविदात्मक दर पर उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित तत्काल देय है। भुगतान/वसूली तक, **आईडीबीआई बैंक द्वारा 02.08.2025** को जारी/सेवा की गई थी। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उधारकर्ता(कों) / बंधककर्ता(कों) के संबंधित पतों पर "पंजीकृत डाक द्वारा पावती देय" द्वारा भेजा गया था, जिसे "पताकर्ता का पता नहीं लगाया जा सकता" के रूप में डाक टिप्पणियों के साथ बिना सेवा के वापस कर दिया गया था। उपरोक्त के मद्देनजर, यह सार्वजनिक सूचना सरफेसी नियमों के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुपालन में जारी की जाती है।

कृपया ध्यान दें कि आप **आईडीबीआई बैंक** की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति को इस्तांतरित या अन्यथा (अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) नहीं करेंगे, ऐसा न करने पर आप सरफेसी अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए

हम आपका ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं।

परिस्थितियों में, **उधारकर्ता/बंधककर्ता** से एक बार फिर अनुरोध है कि वे उपरोक्त राशि का मुगतान इस तिथि से साठ दिनों के भीतर करें अन्यथा **आईडीबीआई बैंक,** एक सुरक्षित ऋणदाता के रूप में, सरफेसी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत और **आईडीबीआई बैंक** को उपलब्ध किसी अन्य कानून के तहत अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए अपने सुरक्षा हित को लागू करने का हकदार होगा।

संपत्ति का विवरण:--

फ्लैट संख्या बी–203, 2बीएचके, ब्लॉक–बी, द्वितीय तल का वह पूरा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1050 वर्ग फुट है, खेवट खतौनी संख्या 260 / 306, खसरा संख्या 21 / /20 / 2(3—16), 21 / 1(3—6), हदबस्त संख्या 33, कित्ते—2 में शामिल है, कुल भूमि 07 कनाल 02 मरला है जिसमें से 3/568 हिस्सा यानी 0.75 मरला सुखमनी एन्क्लेव, सेक्टर 127, गाँव छज्जूमाजरा, तहसील खरड़, जिला एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में श्री गोपाल पुत्र श्री केदार सिंह के नाम पर पंजीकृत, 2023–24/15/1/13573 के तहत दिनांक 04.12.2023, साथ ही उस पर सभी वर्तमान और भविष्य के कालों की संरचनाएं और निर्माण।

दिनाँक : 20-08-2025, स्थान : चंडीगढ प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold, only in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



Business Standard Insight Out



RANA SUGARS LIMITED

CIN: L15322CH1991PLC011537
Registered Office: SCO 49-50, Sector 8-C, Chandigarh-160009
Website: www.ranasugars.com, E-mail: info@ranagroup.com
Tel.: 0172-2540007, 2549217, 2541904, 2779565, 2773422, FAX: 0172-2546809

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company has opened a special window exclusively for the re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/process/or otherwise. The special window will remain open from July 07, 2025 to January 06, 2026.

Re-lodgement of legally valid and complete documents for transfer of physical shares, where there is no dispute on ownership will be considered. Investors may submit their request till January 06, 2025 with our Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), at M/s Alankit Assignments Limited, 205-208 Anarkali Market, Jhandewala Extension, New Delhi, Delhi- 110055, Email: info@alankit.com,rta@alankit.com, Telephone No.: (022) 6263 8200.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode. Investors must have a demat account and provide its Client Master List ("CML"), along with the transfer documents and share certificate, while re-lodging the transfer request with RTA. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat-

We reiterate that re-lodgement will be allowed only in those cases where transfer deed for physical shares were lodged before April 01, 2019 and were rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/process/or otherwise.

For Rana Sugars Limited

Date: 20th August, 2025 Place: Chandigarh Madhur Bain Singh Company Secretary



SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED

CIN: L65923MH2008PLC261472

Registered & Corporate Office: Unit No. 1101, Sharda Terraces,
Plot No. 65, Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614

Tel No: +91 22 4094 1556 | E-mail: company.secretary@suryodaybank.com

Website: <u>www.suryodaybank.com</u> Notice of the Seventeenth (17th) Annual General Meeting and E-voting information

NOTICE is hereby given that the Seventeenth (17th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Suryoday Small Finance Bank Limited (the "Bank") will be held on Thursday, September 11, 2025, at 3:30 p.m. Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice convening the 17th AGM dated August 19, 2025.

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rules made thereunder and the General Circulars No. 14/ 2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent Circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, in relation to extension of the framework provided in the aforementioned circulars up to September 30, 2025 read with other relevant circulars, issued by the Ministry Corporate Affairs ("MCA") [collectively referred to as "MCA") Circulars"], and Circulars issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI") /.e. Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and latest being SEBI/ HO/ CFD/ CFD PoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 dated October 03, 2024, and other applicable Rules / Circulars, if any on the matter, issued by the MCA and SEBI in this regard (hereinafter collectively referred to as "Applicable Circulars"), permitted the holding of the AGM through VC/OAVM facility on or before September 30, 2025, without physical presence of the Members at a common venue and relaxation from dispatching of physical copy of the Annual Report. Accordingly, in compliance with the provisions of the Act, SEBI Listing Regulations and the Applicable Circulars, the 17th AGM of the Bank is being convened and to be conducted through VCiOAVM facility, without the physical presence of members. Accordingly, the Members can attend and participate in the AGM using the VCiOAVM facility. The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent ("KFintech" or "RTA"), to provide facility for e-voting and VC/OAVM facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the e-AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 17th AGM along with the Annual Report of the Bank for the Financial Year ("FY") 2024-25 have been sent through electronic mode to all the members of the Bank whose e-mail IDs are registered with the Bank's RTA/ or relevant Deposition Participant(s). The despatch of the Notice of AGM along with the Annual Report to the members through e-mail has been completed on Wednesday, August 20, 2025.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Bank is providing to all its members (holding shares either in physical form or in dematerialised form), the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be considered at the 17th AGM through remote e-voting or e-voting during the AGM (collectively referred as "e-voting"). The detailed instructions for e-voting are provided in the Notice of the 17th AGM.

1. Members are hereby informed that

- (i) All of the businesses as set out in the Notice of the 17th AGM shall be transacted through e-voting i.e., through Remote e-voting or voting during AGM (Instapoll).
- The Cut-off date for determining the eligibility to vote by e-voting system at the AGM shall be Thursday, September 04, 2025.
- (ii) The remote e-voting period shall commence on Saturday, September 06, 2025 (9.00 a.m IST) and end on Wednesday, September 10, 2025 (5:00 p.m. IST).
- (iv) A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners maintained by the Depositories/ KFintech as on the Cut-off Date i.e. Thursday, September 04, 2025 only shall be entitled to avail the facility of e-voting.
- (v) Any person who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after despatch of Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off date i.e. **Thursday**, **September 04**, **2025**, may obtain the login ID and password by sending an e-mail at <u>evoting@Kfintech.com</u>. However, if he / she is already registered with KFintech for e-voting then he /she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.
- (vi) Information and instructions including details of User ID and Password relating to e-voting have been sent to the Members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM facility.
- (vii) Members may note that:
- The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on Wednesday. September 10, 2025.
- b) the facility for e-voting (Instapoll) will also be made available during the AGM and to those members who would be attending the AGM through VC/OAVM and who have not earlier cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the Instapoll system during the AGM.
- the members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may als attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
- (vii) The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Bank as on the Cut-off Date i.e. Thursday, September 04, 2025, subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, as amended.
- (x) A copy of the Notice of 17th AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 inter-alia indicating the process and manner of remote e-voting and e-voting during AGM have been sent by electronic mode to all those members whose e-mail addresses are registered with the Bank / its RTA or relevant Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars.
- (x) Members may note that the Notice of AGM and Annual Report for the FY 2024–25 will also be available on the websites of the Bank (at https://www.bseindia.com), website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (https://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India (https://www.nseindia.com) and on the website of Service Provider i.e. KFintech (https://www.nseindia.com) in compliance with the relevant Circulars.
- (xi) in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, the Bank is also sending a letter to those shareholder(s) who have not so registered their e-mail address with the Bank/RTA or DP, whereby providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report for FY 2024-25. are available.
- 2. In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the 'Help', 'FAQ' and e-voting user manual available at the 'downloads' section on the website (bottom comer) of Bank's RTA at https://evoting.kfintech.com or contact KFin Technologies Limited, Unit: Suryoday Small Finance Bank Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India 500 032, E-mail ids: einward.ris@kfintech.com", umesh.pandey@kfintech.com or call to RTA at toll free No. 1800 3094 001 for any further clarifications or write to Company Secretary of the Bank at registered office or at company.secretary@suryodaybank.com.
- Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and other applicable provisions of SEBI Listing Regulations, Register of Members and Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from Friday, September 05, 2025 to Thursday, September 11, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Members who have not registered their e-mail address may register their e-mail address with the Bank, as mentioned hereunder:

- a) For shareholders holding share(s) in physical form SEBI through Section V of the Master Circular for Registrars to an Issue of 'Share Transfer Agents' dated June 23, 2025 has made mandatory for shareholders holding shares of the Bank in physical form, to, inter-afie update their KYC, including contact details, e-mail address, Mobile Number, Bank Details, choice of Nominations etc. by furnishing requisite detail in Form ISR-1. In this connection, the form, as notified by SEBI along with other requisite details, are available at the Bank's website at https://www.suryodaybank.com/Ayailing-Investor.
- For Demat Holders Members holding shares of the Bank in electronic form, can verify/update their respective e-mail addresses with their respective Depository Participant(s).

Special Window for re-lodgement of Transfer Requests of shares held in physical form

SEBI, vide Circular dated July 02, 2025 on 'Ease of Doing Investment-Special Window for Relodgement of Transfer Requests of Physical Shares', has advised that in order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities purchased, transfer deeds which were lodged prior to April 01, 2019 by the Shareholders holding shares in physical mode, and rejected/returned due to deficiency in the documents may be re-lodged with requisite documents with the RTA of the Bank, during the special window from July 07, 2025 to January 06, 2026. Therefore, the concerned Shareholders are requested to utilise this facility for re-lodging the request for Transfercum-Demat of their shares during the abovementioned period.

For Suryoday Small Finance Bank Limited

Place: Navi Mumbai Krishna Kant Chaturvedi Date: August 20, 2025 Company Secretary & Compliance Officer



PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED CIN: L07010KA1997PLC022322

Regd. Office: Prestige Falcon Tower, No.19, Brunton Road, Bangalore-560 025 Email: investors@prestigeconstructions.com Website: www.prestigeconstructions.com Phone: +91 80 25591080, Fax +91 80 25591945

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **TWENTY EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)** of the Members of Prestige Estates Projects Limited will be held on Wednesday, September 10, 2025, at the registered office: Prestige Falcon Tower, No. 19, Brunton Road, Bangalore – 560025 at 11:30 A.M to transact the businesses as set out in the notice of the AGM.

The Notice setting out the Ordinary business & Special business and the Annual Report for the financial year ended 2024-25 have been sent to the members of the Company on August 19, 2025.

The detailed Notice of the AGM and the detailed Annual Report for the financial year 2024-25 can also be accessed at the below links for ease of reference:

Notice-https://prestigecorporatesite.s3.ap-south-1.amazonaws.com/investors/financial-performance/fy-2024-2025/agm--notice-24-25.pdf

 $Annual\ Report\ -\ https://prestigecorporate site.s3.ap-south-1.amazonaws.com/investors/financial-performance/fy-2024-2025/annual-report-24-25.pdf$

Pursuant to the provisions of Section 108 of The Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, facility to exercise their right to vote using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting") on resolutions proposed to be passed in the Annual General Meeting. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia., containing User ID and Password along with a copy of the Notice convening the meeting has been sent to the members. A copy of the AGM notice along with the e-voting instructions can also be accessed on the website of CDSL https://www.evotingindia.com

The e-voting period commences on Sunday, September 7, 2025, at 9.00 A.M. and ends on Tuesday, September 9, 2025, at 5.00 P.M. During this period, shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of September 3, 2025, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Members who have acquired shares after the dispatch of Notice and before the cut-off date i.e., September 3, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdsl.com or Issuer/RTA.

The Board of Directors has appointed Mr. Nagendra D. Rao, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in accordance with law and in a fair and transparent manner. The Results along with the Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and on the website of CDSL within 48 hours of passing of the Resolutions at the Annual General Meeting of the Company.

All Investors queries / Grievances may be addressed to Mr. Manoj Krishna J V, Company Secretary & Compliance Officer of the Company at investors@prestigeconstructions.com.

For and on behalf of Prestige Estates Projects Limited

Date: August 20, 2025 Place: Bengaluru

Company Secretary and Compliance Officer

ESAB INDIA LIMITED **ESAB**

CIN No. L29299TN1987PLC058738

Regd Office: Plot No. 13, 3rd Main Road, Industrial Estate, Ambattur, Chennai - 600 058

Telephone No. 044-42281100 email id : investor.relations@esab.co.in

Special Window opened for Re-Lodgment of Transfer Requests of Physical Shares

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, Shareholders of ESAB India Limited are hereby informed that, a special window has been opened for a period of six months from July 07, 2025, to January 06, 2026, for re-lodgment of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019, for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/ process/or otherwise. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders may please submit their transfer requests along with the requisite documents to our Registrar and Share Transfer Agents ('RTA'), i.e. Integrated Registry Management Services Private Limited, 2 nd Floor, "Kences Towers" No 1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai-

During this period the securities that are relodged for transfer will be issued only in Dematerialized mode, once all the documents are found in order by the RTA. Hence the lodgers must have the Demat account and provide the Copy Client Master List (CML) along with the transfer documents of share certificate(s). Transfer request submitted after 6 th January 2026 will not be accepted by the company.

For any further queries, you can contact our RTA at einward@integratedindia.in and company at investor.relations@esab.co.in

Place: Chennai Date: 20th August 2025 For ESAB India Limited **G. Balaji**Company Secretary

TIERRA

TIERRA AGROTECH LIMITED CIN:L01119TG2013PLC090004 Registered Office: 7-1-24/2/D/SF/204, Greendale, Ameerpet, Hyderabad,

Legistered Office: 7-1-24/2/D/SF/204, Greendale, Ameerpet, Hyderabad, Telangana - 500016, India. website: https://www.tierraagrotech.com E-mail: cs@tierraagrotech.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of Tierra Agrotech Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September 25, 2025, at 01:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and in accordance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 and other relevant circulars is sued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), from time to time in this regard, to transact such items of business as set out in the notice calling the said AGM.

In compliance with the above-mentioned circulars, the Notice of 12th AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent to all the shareholders of the Companythrough electronic mode, whose email addresses are registered with the Company or Company's Registrars & Share Transfer Agents (RTA)/ Depository Participants. The AGM Notice and the Annual Report will also be uploaded on our corporate website — www.tierraagrotech.com, website of stock exchange, www.tierraagrotech.com, website of stock exchange,

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Company will be sending a letter to members whose e-mail address is not registered with Company! Depository Participant providing the exact web-link of Company's website from where the Annual Report for financial year 2024-25 can be accessed.

To receive the notice of the said AGM, e-voting instructions and further communications, the Shareholders who have not registered/updated their emai addresses with the Company can get the same registered with the Company by furnishing the duly filled and signed Form ISR-1 along with their Self attested PAN & Aadhaar to the Company's Registrars and Share Transfer Agents (RTA), M's Venture Capital and Corporate Investments Private Limited, "Aurum", Door No. 4-50. P-II/57/I4F & 5F, Plot No. 57, 4th & 5th Floors, Jayabheri Enclave Phase – II, Gachibowii Hyderabad – 500032, Email id: investor; relations@vccipl.com, and the shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their emai addresses with their Depository Participants.

Further, members may contact Ms. Kalidindi Anagha Devi, Company Secretary and Compliance Officer of the Company for any matter connected with receipt of Notice and Annual Report by writing an e-mail to an email id: cs@tierraagrotech.com

Note: Links to download the KYC & Nomination Forms are mentioned below Form ISR-1: https://www.vccipl.com/sebipdf/Form%20ISR-2.pdf
Form ISR-2: https://www.vccipl.com/sebipdf/Form%20ISR-3.pdf

Form SH-13: https://www.vccipl.com/sebipdf/Form%20SH-13.pdf
For TIERRA AGROTECH LIMITEL

Place: Hyderabad Date: 21-08-2025 Kalidindi Anagha Devi Company Secretary & Compliance Officer In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Manoj Krishna JV

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — every day with Stocks in the News in Business Standard.

Dated: 20.08.2025

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

CC/\L CHEMFAB ALKALIS LIMITED

CIN:L24290TN2009PLC071563

Regd. Office: Team House, GST Road, Vandalur, Chennai 600 048.

Website: www.chemfabalkalis.com Email: ccalcosecy@ccal.in

Phone No: +91 44 22750323 Fax No: +91 44 22750860

NOTICE

September 2025, through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the notice of 16" AGM, sent to the members by email. The Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its General Circular No. 09/2024 dated 19" September, 2024 (MCA Circulars), and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 (SEBI Circular) has allowed the Companies to conduct the Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) till 30" September, 2025 without the physical presence of members at the common venue.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the notice of the 16" AGM along with Annual Report for the financial year.

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting of the Company will be held at 10:00 A.M (IST) on Friday the 12th Day of

In compliance with the above circulars, electronic copies of the notice of the 16th AGM along with Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s)/ Registrar and Transfer Agent (RTA) in the permitted mode (by email) on 20th August 2025, also made available on the website of the Company: (www.chemfabalkalis.com), Stock exchanges: BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

A letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available will be sent to the members whose e-mail addresses are not registered with Company / Depository Participants/RTA. The requirement of sending physical notice of 16th AGM along with Annual Report to the members have been disposed off vide above circulars.

Manner of Casting vote(s) through E-voting:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014

and Regulation 44 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing remote e-Voting facility (remote e-voting) to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of 16th AGM. Additionally, the company is providing the facility of voting through e-voting platform provided by CDSL E-Voting during/at the 16th AGM). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of AGM

a. The cut-off date for the purpose of remote e-voting or at the AGM is **Friday**, **05**th **September**, **2025**. b. The Record Date to ascertain the shareholders who are eligible to receive dividend for FY 2024-25 is fixed as **Friday 05**th **September**, **2025**

c. The remote e voting shall commence on the **Tuesday**, **09.09.2025** at **9:00 A.M** (IST) and shall end on the **Thursday 11.09.2025** at **5:00 P.M** (IST) after which **e-voting platform shall be disabled by CDSL** d. Those members, who shall be present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions

d. Those members, who shall be present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, she shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
e. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

f. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as of the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to investor@cameoindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User Id and password for casting their votes.

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email address and mobile numbers by clicking https://investors.cameoindia.com with the company's Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited or email to investor@cameoindia.com.

Shareholders are requested to update their bank account details with their depositories (where shares are held in dematerialised mode) and with Company's Registrar and Share Transfer Agent (where the shares are held in physical mode) to receive dividend directly into their bank account

Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the meeting may pre-register themselves by sending a

request from registered e-mail address mentioning their names, DP ID, Client ID/Folio Number, PAN and mobile number to ccalcosecy@ccal.in 7 (Seven) days prior to meeting. Only those members who have pre-registered themselves as speakers will be allowed to express their views/ ask questions during the AGM. The company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

Mr. S.A Inbavadivu, Advocate, Chennai has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a fair and

In case of any queries relating to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Any grievance relating to e-voting facility, members may contact Cameo Corporate Services Limited, Subramaniam Building, No.1 Club House Road, Chennai -600002, Tel 044-28460390 or email:investor@cameoindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from the Saturday 06th September 2025 to the Friday 12th September 2025 (both days inclusive) for annual closing and 16th AGM.

By order of the Board of Directors Sd/-Bharatraj Panchal Company Secretary and Compliance officer

R

BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED

CIN – L15421WB1975PLC030118

Registered Office: FMC Fortuna, 2nd Floor, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700 020
Phone: +91 33-2287 4749, Fax: +91 33-2287 2887

Email: secretarial@bcml.in, Website: www.chini.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, all shareholders are hereby informed that a Special Window is being opened for a period of six months, from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares.

This facility is available for Transfer deeds lodged prior to April 01, 2019 and which were rejected, returned, or not attended to due to deficiencies in documents/process/or otherwise.

Investors who have missed the earlier deadline of March 31, 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") - Unit: Balrampur Chini Mills Limited, Selenium Building, Tower B, Plot No.31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032 and the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed Company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests. The detailed circular is also available on the website of the Company at https://chini.com/investors/investors-referencer/

100 DAYS CAMPAIGN "SAKSHAM NIVESHAK"

In addition to the above, attention of shareholders is drawn to the '100 days Campaign - Saksham Niveshak', initiative from the Ministry of Corporate Affairs, under which the Company continues to assist shareholders in claiming their unpaid/unclaimed dividends.

The Shareholders who have not claimed their dividends can update their KYC details and claim the said dividends. The process to update the KYC along with draft forms are available on the website of the Company at https://chini.com/investors/investors-referencer/ and on the RTA's website - https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx.

Mode of dispatch-

Place: Kolkata

Date: 20th August, 2025

By post: Physical copies, self-attested and dated to KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") - Unit: Balrampur Chini Mills Limited, Selenium Building, Tower B, Plot No.31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032 or;

 $\textbf{By email}: From your registered email ID, with digitally signed documents to: \underline{einward.ris@kfintech.com} \, or; \\$

Through web-portal of our RTA i.e. https://ris.kfintech.com

Shareholders are kindly requested to take note of the above instructions and act accordingly.

By order of the Board of Directors
For Balrampur Chini Mills Limited
Sd/Manoi Aganwal

Manoj Agarwal Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A18009

•